



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं० 9] नई दिल्ली, मई 7-मई 13, 2006, शनिवार/वैशाख 17-वैशाख 23, 1928  
No. 9] NEW DELHI, MAY 7-MAY 13, 2006, SATURDAY/VAISAKHA 17-VAISAKHA 23, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2006

का.नि.आ. 55.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के का.नि.आ. 76(अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम सं. 10 और 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए 'धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के तहत' शीर्षक के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

- (10) श्री डी.पी. यादव —सदस्य  
(11) मेजर दलबीर सिंह (सेवानिवृत्त) —सदस्य

[का. सं. 10(19)/89/रक्षा (जी एस-VI)]

आर. एल. कपूर, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 1983 के सं. सां.नि.आ. 76(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा बाद में उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. 18-8-1986 का का.नि.आ. 290
2. 6-4-1987 का का.नि.आ. 154
3. 25-9-1987 का का.नि.आ. 298
4. 28-5-1990 का का.नि.आ. 110
5. 28-6-1990 का का.नि.आ. 140
6. 30-9-1991 का का.नि.आ. 224
7. 30-9-1991 का का.नि.आ. 225
8. 22-6-1992 का का.नि.आ. 183
9. 20-5-1993 का का.नि.आ. 184
10. 21-8-1995 का का.नि.आ. 188
11. 16-5-1996 का का.नि.आ. 94
12. 11-12-1998 का का.नि.आ. 172
13. 24-2-1999 का का.नि.आ. 37
14. 16-8-2000 का का.नि.आ. 183
15. 18-2-2003 का का.नि.आ. 44
16. 30-5-2003 का का.नि.आ. 67
17. 17-10-2003 का का.नि.आ. 157

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th April, 2006

**S.R.O. 55.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby appoints the following persons as non-official member of the Central Advisory Committee with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Defence, SRO 76(E), dated 10th October, 1983, namely :—

In the said Notification, under the heading “under clause (h) Sub-section (1) of Section 12”, for serial number 10 and 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely :—

(10) Shri D.P. Yadav —Member

(11) Maj. Dalbir Singh (Retd.) —Member

[F.No. 10(19)/89/D(GS-VI)]

R. L. KAPOOR, Under Secy.

**Foot Note :** The Notification was published *vide* No. SRO 76(E), dated the 10th October, 1983 and subsequently amended *vide* :—

1. S.R.O. 290 dt. 18-8-1986
2. S.R.O. 154 dt. 6-4-1987
3. S.R.O. 298 dt. 25-9-1987
4. S.R.O. 110 dt. 28-5-1990
5. S.R.O. 140 dt. 28-6-1990
6. S.R.O. 224 dt. 30-9-1991
7. S.R.O. 225 dt. 30-9-1991
8. S.R.O. 183 dt. 22-6-1992
9. S.R.O. 184 dt. 20-5-1993
10. S.R.O. 188 dt. 21-8-1995
11. S.R.O. 94 dt. 16-5-1996
12. S.R.O. 172 dt. 11-12-1998
13. S.R.O. 37 dt. 24-2-1999
14. S.R.O. 183 dt. 16-8-2000
15. S.R.O. 44 dt. 18-2-2003
16. S.R.O. 67 dt. 30-5-2003
17. S.R.O. 157 dt. 17-10-2003

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2006

**का.नि.आ. 56.**—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के केन्द्रीय आयुध डिपो के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

## अनुसूची

केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर के बाहरी परिधि के समीपस्थ बाउंडरी पिल्लर सं. 31/59 (506 ए.बी.डब्ल्यू. के सामने) तथा 31/90 (ग्राम महागांव के सामने) के बीच नौ सौ साठ मीटर (960 मीटर) की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[फा. सं. 77748/46/एनओटीएफएन/एलडब्ल्यू (मध्य)/74/यूएस (बी)/रक्षा (भूमि)/06]

के. के. सिल, अवर सचिव

New Delhi, the 24th April, 2006

**S.R.O. 56.**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (/ of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clauses (b) and (c) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below, being land lying in the vicinity of Central Ordnance Depot in the District of Jabalpur in the State of Madhya Pradesh, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. A sketch plan of the said land may be inspected at the office of the Deputy Commissioner, Jabalpur, Madhya Pradesh.

## SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of nine hundred sixty metres (960 metres) between Boundary Pillar No. 31/59 (opposite 506 ABW) and 31/90 (opposite village Mahagaon) contiguous to outer perimeter of Central Ordnance Depot, Jabalpur.

[F.No. 77748/46/Notfn/LW(Central)/74/US(B)/D(L)/06]

K. K. SIL, Under Secy.

( रक्षा उत्पादन विभाग )

## ( वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय )

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2006

**का. नि. आ. 57.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (वायु) संगठन (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1972 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' और 'ग' (अनुसचिवीय पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय समूह 'ख' और 'ग' (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. कार्यालय अधीक्षक	03* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	5500-175-9000 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।				
8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष				
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशत		प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा				
11	12					
प्रोन्नति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति :</b> ऐसा सहायक जिसने उस श्रेणी में 5000-150-8000 के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनका ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>					
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा				
13	14					
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :		इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने या उसे शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।				
1. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन मुख्यालय महानिदेशालय से निदेशक	—अध्यक्ष					
2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन मुख्यालय महानिदेशालय से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी रैंक के दो अधिकारी	—सदस्य					
3. किसी अन्य रक्षा स्थापना से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी रैंक का एक अधिकारी	—सदस्य					
1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक	14* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	5000-150-8000 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9		10			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता			

11.	12
प्रोन्नति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति :</b> ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में 4000-100-6000 रु. के वेतनमान में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

13	14
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :	लागू नहीं होता
1. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन मुख्यालय महानिदेशालय स निदेशक	—अध्यक्ष
2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन मुख्यालय महानिदेशालय से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी रैंक के दो अधिकारी	—सदस्य
3. किसी अन्य रक्षा स्थापना से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी रैंक का एक अधिकारी	—सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
3. उच्च श्रेणी लिपिक	44* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8		9		10		
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		

11	12
प्रोन्नति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति :</b> (i) ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में 3050-75-3950-80-4590 के वेतनमान में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो-75 प्रतिशत (ii) सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित शर्तों के अनुसार अवर श्रेणी लिपिकों के लिए संसीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से-25 प्रतिशत।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

13

14

**प्रोन्नति क संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :**

लागू नहीं होता

1. भारसाधक अधिकारी, वायु अस्त्र निरीक्षण स्कंध, खमरिया —अध्यक्ष
2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1 या ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2 की रैंक के दो अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य रक्षा स्थापना से ज्येष्ठ वैज्ञानिक श्रेणी-1 या ज्येष्ठ वैज्ञानिक श्रेणी-2 की रैंक का एक अधिकारी —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
4. अवर श्रेणी लिपिक	48* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचित	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (स्तंभ 11 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन)

8	9	10
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
2. अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।		

11

12

(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) 10 प्रतिशत पद ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से भरे जाएंगे जो मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता रखते हों और जिन्होंने सीमित विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर समूह 'घ' में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष की आयु) है।

स्तंभ 11 में यथा कथित

**टिप्पण :**

(क) किसी विशिष्ट वर्ष से संबंधित न भरी गई रिक्तियों को अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(ख) यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से ऐसे कर्मचारी उक्त परीक्षा में अधिक संख्या में अर्हता प्राप्त करते हैं तब ऐसी अतिरिक्त संख्या के कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्व वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे पूर्वतर परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके जो पश्चात्पूर्व परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

(iii) 5 प्रतिशत पद ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों से ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे जो मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता रखते हों और जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

**टिप्पण :** समूह 'घ' उपरोक्त खंड (ii) और (iii) के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए सीधी भर्ती के लिए यथा विनिर्दिष्ट टंकण कुशल होंगे।

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए :

लागू नहीं होता

1. भारसाधक अधिकारी, वायु अस्त्र निरीक्षण स्कंध, खमरिया —अध्यक्ष
2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1 या ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2 की रैंक के दो अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य रक्षा स्थापना से ज्येष्ठ वैज्ञानिक श्रेणी-1 या ज्येष्ठ वैज्ञानिक श्रेणी-2 की रैंक का एक अधिकारी —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
5. आशुलिपिक श्रेणी-1 (ज्येष्ठ निजी सहायक)	08* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8		9		10		
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		दो वर्ष		

11  
प्रोन्नति द्वारा

12

प्रोन्नति :

(i) ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-2 जिसने उस श्रेणी में 5000-150-8000 रु. के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13

14

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :

1. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन मुख्यालय महानिदेशालय से निदेशक —अध्यक्ष
2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन मुख्यालय महानिदेशालय से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी रैंक के दो अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य रक्षा स्थापना से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी रैंक का एक अधिकारी —सदस्य

इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने या उसे शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
6. आशुलिपिक श्रेणी-2	16* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5000-150-8000 रु	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8			9		10	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
11					12	
प्रोन्नति द्वारा				प्रोन्नति :		
				(i) ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-3 जिसने उस श्रेणी में 4000-100-6000 रु. के वेतनमान में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।		
				टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी गरिबीक्षा की अवधि साफल्यपूर्वक पूरी कर ली हो।		
13					14	
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :						लागू नहीं होता
1. भारसाधक अधिकारी, वायु अस्त्र निरीक्षक स्कंध, खमरिया				—अध्यक्ष		
2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1 या ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2 की रैंक के दो अधिकारी				—सदस्य		
3. किसी अन्य रक्षा स्थापना से ज्येष्ठ वैज्ञानिक श्रेणी-1 या ज्येष्ठ वैज्ञानिक श्रेणी-2 की रैंक का एक अधिकारी				—सदस्य		
1	2	3	4	5	6	7
7. आशुलिपिक श्रेणी-3	14* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच



8	9	10
अंग्रेजी या हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ मेट्रीकुलेशन या इसके समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष
11	12	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
13	14	
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :	लागू नहीं होता	
1. भारसाधक अधिकारी, वायु अस्त्र निरीक्षण स्कंध, खमरिया	—अध्यक्ष	
2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1 या ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2 की रैंक के दो अधिकारी	—सदस्य	
3. किसी अन्य रक्षा स्थापना से ज्येष्ठ वैज्ञानिक श्रेणी-1 या ज्येष्ठ वैज्ञानिक श्रेणी-2 की रैंक का एक अधिकारी	—सदस्य	

**टिप्पण :** 1.--अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

2. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए निश्चित की गई है।)

3. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

[फा. सं. 2523/डीजीएक्यूए/प्रशा.-1/539-III/डी (एचएएल)]

वी. सेतुमाधवन, अवर सचिव

(Department of Defence Production)

(Directorate General of Aeronautical Quality Assurance)

New Delhi, the 25th April, 2006

**S.R.O. 57.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in suppression of the Directorate of Technical Development and Production (Air) Organisation (Group "C" Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1972, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' and 'C' (Ministerial Posts) in the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance Department of Defence Production, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance Department of Defence Production, Ministry of Defence Group 'B' and 'C' (Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2006

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other related matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

1296 GI/0 6-3

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection cum seniority or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
1. Office Superintendent	03* (2006) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not-applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruit			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any	
8			9		10	
Not applicable			Not applicable		Two years	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation or absorption and percentage of post to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or absorption or deputation to be made		
11				12		
Promotion				<b>Promotion :</b> Assistant in the pay scale of Rs. 5000-150-8000 with three years of regular service in the grade. <b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

**Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion :**

Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment or relaxation of any provisions of these rules.

1. Director from HQ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance ... Chairman
2. Two Officers of the rank of Principal Scientific Officer from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance ... Members
3. One Officer of the rank of Principal Scientific Officer from any other Defence establishment ... Member

1	2	3	4	5	6	7
2. Assistant	14* (2006) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Selection	Not-applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
Promotion	<p><b>Promotion :</b> Upper Division Clerk in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 with eight years of regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

13

14

**Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion :**

Not applicable

1. Director from HQ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance ... Chairman
2. Two Officers of the rank of Principal Scientific Officer from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance ... Members
3. One Officer of the rank of Principal Scientific Officer from any other Defence establishment ... Member

1	2	3	4	5	6	7
3. Upper Division Clerk	44* (2006) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-Selection	Not applicable	Not applicable
8		9		10		
Not applicable		Not applicable		Not applicable		
11		12				
Promotion		<b>Promotion :</b> (i) Lower Division Clerk in the pay scale of Rs. 3050-75-3950-80-4590 with eight years of regular service in the grade on a regular basis—75%. (ii) Through a competitive examination confined for Lower Division Clerks in accordance with conditions laid down by Government from time to time—25%. <b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.				
13				14		
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion :				Not applicable		
1. Officer-in-Charge, Air Armament Inspection Wing Khamaria ... Chairman						
2. Two Officers of the rank of Senior Scientific Officer Grade-I or Senior Scientific Officer Grade-II from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance ... Members						
3. One Officer of the rank of Senior Scientific Officer Grade-I or Senior Scientific Officer Grade-II from any other Defence establishment ... Member						
1	2	3	4	5	6	7
4. Lower Division Clerk	48* (2006) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years (subject to provisions contained in column 11)

8	9	10
1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University.	Not applicable	Two years
2. A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.		

11	12
(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission.	As stated in column 11.
(ii) 10% of posts shall be filled up from amongst the Group 'D' staff who possess matriculation or equivalent qualification and have rendered five years regular service in group 'D', on the basis of Limited Departmental Qualifying Examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the SC/ST).	
<b>Note 1 :</b>	
(a) Unfilled vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over.	
(b) if more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent year so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.	
(iii) 5% of the posts shall be filled up by promotion on seniority-cum-fitness basis from group 'D' employees who possess matriculation or equivalent qualification and have rendered five years of regular service.	
<b>Note 2 :</b> The group 'D' shall possess the typing skill as specified for direct recruitment in order to be eligible for appointment under clause (ii) and (iii) above.	

13	14
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation and promotion :</b>	Not applicable
1. Officer-in-Charge, Air Armament Inspection Wing, Khamaria	—Chairman
2. Two Officers of the rank of Senior Scientific Officer Grade-I or Senior Scientific Officer Grade-II from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	—Members
3. One Officer of the rank of Senior Scientific Officer Grade-I or Senior Scientific Officer Grade-II from any other Defence establishment.	—Members

1	2	3	4	5	6	7
5. Steno-grapher Grade-I (Senior Personal Assistant)	08* (2006) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable	Not applicable

1296 GI/06-4

8		9		10		
Not applicable		Not applicable		Two years		
11		12				
Promotion		<b>Promotion :</b> Stenographer Grade-II in the pay scale of Rs. 5000-150-8000 with three years service in the grade on regular basis. <b>Note :—</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.				
13		14				
<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion :—</b> 1. Director from HQ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Chairman 2. Two Officers of the rank of Principal Scientific Officer from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Members 3. One Officer of the rank of Principal Scientific Officer from any other Defence establishment — Member		Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment or relaxation of any provisions of these rules.				
1	2	3	4	5	6	7
6. Steno-grapher Grade-II	16 *(2006) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Selection	Not applicable	Not applicable
8		9		10		
Not applicable		Not applicable		Not applicable		
11		12				
Promotion		<b>Promotion :</b> Stenographer Grade-III in the scale of Rs. 4000-100-6000 with eight years of regular service in the grade. <b>Note :—</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.				

13	14
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion :—</b>	Not applicable
1. Officer-in-Charge, Air Armament Inspection Wing Khamaria —Chairman	
2. Two Officers of the rank of Senior Scientific Officer Grade-I or Senior Scientific Officer Grade-II from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Members	
3. One Officer of the rank of Senior Scientific Officer Grade-I or Senior Scientific Officer Grade-II from any other Defence establishment — Members	

1	2	3	4	5	6	7
7. Steno-grapher Grade-III	14 *(2000) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100- 6000	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 27 years

8	9	10
Matriculation or its equivalent with a speed of 80 w.p.m. in short hand and 40 w.p.m. in typing in English or Hindi.	Not applicable	Two years

11	12
By direct recruitment	Not applicable

13	14
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :—</b>	Not applicable
1. Officer-in-Charge, Air Armament Inspection Wing Khamaria — Chairman	
2. Two Officers of the rank of Senior Scientific Officer Grade-I or Senior Scientific Officer Grade-II from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Members	
3. One Officer of the rank of Senior Scientific Officer Grade-I or Senior Scientific Officer Grade-II from any other Defence establishment — Members	

- Note :** 1. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority and to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
2. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Sikkim, Laddakh division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti districts of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).
3. In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the name.

[F. No. 2523/DGAQA/Admin-I/539-III/D(HAL)]

V. SETHUMADHAVAN, Under Secy.

1296 GI/06-5

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2006

का.नि.आ. 58.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल एन.पी. सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, सागर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/34/सागर/सी/डीई/2001/1084/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2006

**S.R.O. 58.**—In pursuance of Sub-section (3) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the Membership of the Cantonment Board **Saugor** by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. **N.P. Singh**.

[F. No. 19/34/Saugor/C/DE/2001/1084/D (Q&C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2006

का.नि.आ. 59.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, सागर ने उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नल वी. डब्ल्यू. वैद्य को छावनी बोर्ड, सागर का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल एन.पी. सिंह के स्थान पर किया गया है, जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/34/सागर/सी/डीई/2001/1084/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2006

**S.R.O. 59.**—In pursuance of Sub-section (3) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. **V.W. Vaidya** has been nominated as a member of the Cantonment Board, **Saugor** by the Station Commander, **Saugor** in exercise of the powers conferred under Sub-section (3) of Section 14 of that Act vice Col. **N.P. Singh** whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/34/Saugor/C/DE/2001/1084/D (Q&C)]

R. S. Dudani, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2006

का.नि.आ. 60.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, उत्तरी कमान द्वारा कर्नल ए.एम. सेठी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, खासगोल में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/50/खासगोल/सी/डीई/2001/1083/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2006

**S.R.O. 60.**—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the Membership of the Cantonment Board **Khasyol** by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Northern Command of resignation of Col. **A. M. Sethi**.

[F. No. 19/50/Khasyol/C/DE/2001/1083/D (Q&C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.



नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2006

**का.नि.आ. 61.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, **खासयोल** ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **कर्नल बी. एस. ग्रेवाल** को छावनी बोर्ड, **खासयोल** का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन **कर्नल ए.एम. सेठी** के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/50/खासयोल/सी/डीई/2001/1083/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 2006

**S.R.O. 61.**—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that **Col. B.S. Grewal** has been nominated as a member of the Cantonment Board, **Khasyol** by the Station Commander, **Khasyol** in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (4) of Section 13 of that Act vice **Col. A. M. Sethi** whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/50/Khasyol/C/DE/2001/1083/D (Q&amp;C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2006

**का.नि.आ. 62.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (3) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा ले. **कर्नल एस. के. पाण्डे** का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, **नैनीताल** में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/8/नैनीताल/सी/डीई/2001/197/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2006

**S.R.O. 62.**—In pursuance of Sub-section (3) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the Membership of the Cantonment Board **Nainital** by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, **Central Command** of resignation of **Lt. Col. S. K. Pandey**.

[F. No. 19/8/Nainital/C/DE/2001/197/D (Q&amp;C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2006

**का.नि.आ. 63.**—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, **नैनीताल** ने उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **कर्नल बी. एस. राय** को छावनी बोर्ड, **नैनीताल** का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले. **कर्नल एस. के. पाण्डे** के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/8/नैनीताल/सी/डीई/2001/197/डी(क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 20th March, 2006

**S.R.O. 63.**—In pursuance of Sub-section (2) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that **Col. B.S. Rai** has been nominated as a member of the Cantonment Board, **Nainital** by the Station Commander, **Nainital** in exercise of the powers conferred under clause (b) of Sub-section (2) of Section 14 of that Act vice **Lt. Col. S. K. Pandey** whose resignation has been accepted.

[F. No. 19/8/Nainital/C/DE/2001/197/D (Q&amp;C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.